



इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
नवरत्न कम्पनी
(भारत सरकार का उपक्रम)
IRCON INTERNATIONAL LIMITED
NAVRATNA COMPANY
(A Govt. of India Undertaking)



IRCON/SECY/STEX/124

26th February, 2026

BSE Limited Listing Dept./ Dept. of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 बीएसई लिमिटेड लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001 Scrip code / ID: 541956 / IRCON	National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C-1, G Block, Bandra –Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 Scrip Code: IRCON
---	--

Sub: Disclosure under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”), as amended from time to time, and in continuation to our letter of even no. dated 14th August, 2023, we wish to submit that the Company has received the judgement dated 25th February, 2026 from the Hon’ble High Court of Patna in respect of the VAT assessments for the years 2010-11 to 2016-17 pertaining to the Ganga Bridge Project executed by IRCON.

The requisite details pursuant to Regulation 30 of the SEBI Listing Regulations read with SEBI Master Circular No. HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/I/3762/2026 dated 30th January, 2026, are enclosed as **Annexure-A**

कृपया उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड पर लें।

धन्यवाद,
भवदीया,

(प्रतिभा अग्रवाल)/ (Pratibha Aggarwal)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी / Company Secretary & Compliance Officer
सदस्यता क्र. /Membership No.: F8874
Date and Time of Event :25th February, 2026 at 2000 Hrs.

Annexure-A

Update on development of pending litigation under Regulation 30 read with Clause 8 of Para B of Part A of Schedule III of the SEBI Listing Regulations read with SEBI Master Circular No. HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2//3762/2026 dated 30th January, 2026

Particulars	Details
The details of any change in the status and/or any development in relation to such proceedings:	<p>The Ganga Bridge project was executed by IRCON. VAT assessments for the years 2010-11 to 2016-17 resulted in a demand of Rs. 108.75 crore, which has been appropriately reflected as a contingent liability.</p> <p>IRCON challenged these orders through a writ petition in the Patna High Court, securing a stay on recovery proceedings. Hearings concluded in early December 2025, with the order reserved, however, the court's judgement dated 25.02.2026 dismissed the petition, upholding the assessing authority's demands.</p> <p>Out of the total demand of Rs. 108.75 crore, IRCON has already deposited Rs. 27.39 crore, leaving a net outstanding of Rs. 81.36 crore, exclusive of upto date interest yet to be calculated by the VAT department. IRCON is currently reviewing the detailed order and will pursue appropriate further actions, including an appeal to a higher court.</p>
In the case of litigation against key management personnel or its promoter or ultimate person in control, regularly provide details of any change in the status and / or any development in relation to such proceedings:	Not Applicable
In the event of settlement of the proceedings, details of such settlement including - terms of the settlement, compensation/ penalty paid (if any) and impact of such settlement on the financial position of the listed entity:	Not Applicable
Reason for delay (if any)	Not Applicable.

Indira 26/2/26
CGM/Fin/Tax/IRCON